

# GLIMPSE OF WORLD KIDNEY WEEK CELEBRATION

The banner features logos at the top: the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) logo, the Society of Nephrologists (SN) logo, the Indian Society of Nephrology (ISN) logo, and the World Kidney Day logo. Below the logos, the text reads: "ISN-SRC, Department of Pediatrics & College of Nursing, All India Institute of Medical Sciences, Bhopal". The central text says "Celebrates WORLD KIDNEY DAY 2021" and "Living well with Kidney Disease". The date is "Date: 12/03/2021".

**10%** of the population worldwide is affected by CKD.

Half of people aged **75** or more have some degree of CKD.

Kidney disease can affect people of all ages and races.

Children with CKD may not have any symptoms until about 80% of their kidney function is lost.

**WORLD KIDNEY DAY 2021**

**Living well with Kidney Disease**


**Date: 12/03/2021**

# State Level Post Graduate Quiz (8.3.2021)


## Endorsed by ISPN



# Kidney Day Celebration: Undergraduate Quiz 9.3.2021



# Kidney Day Celebration: Undergraduate Quiz



# Kidney Day Celebration: Nursing Quiz/Assay competition 9.3.2021



# Kidney Day Celebration: Best Bywords for the Society

⑥

Prenatal  
Testing  
Better than  
Medication  
&  
Surgery



Name: SURABHI  
Batch: B.Sc(N) Nursing  
1<sup>st</sup> year  
Department: Nursing  
Contact no: 638730426

# Kidney Day Celebration: Best Bywords for the Society


KIDNEY  
AGES,  
SAVE  
IT !!!



Ⓐ SIMRAN

- B. Sc. (H) Nursing  
1<sup>st</sup> year
- Department - Nursing
- Contact: 7291950683

# Kidney Day Celebration: Best Bywords for the Society






# Parent's Awareness Webinar:11.3.2021





Kids kidney support group formation by Parents

Recording



**OVERVIEW OF KIDNEY Related Problems IN CHILDREN**

- 1 Less blood flow
- 2 Urinary tract blockage
- 3 Glomerulus
- 4 Hemolytic uremic syndrome
- 5 Genetic kidney disease
- 6 Kidney shrinkage
- 7 Kidney infection
- 8 Urine blockage

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>Milind Shinde | <br>Girish Bhatt | <b>GARIMA</b>  |
| <b>Tanmay chaturv...</b>   | <b>Brijendra</b>  | <b>F</b><br>Furkan Ahmad   |
| <b>S</b><br>Suryendru Kumar  | <b>K</b><br>K KRISHNA KU...   | <b>a</b><br>arti sharma  |
| <b>sarika panpatil</b>   | <b>M</b><br>Merin Joseph  | <b>Nikitha Rafeek</b>  |
| <br>Kapil Rabha | <b>Pooja Soni</b>   | <br>Soumya Narula |

# Parent's Awareness Webinar:

## Awareness talk by Dr Milind

Recording

Start early:  
Optimize women's  
and child health

Good governance,  
care for the environment

Healthy lifestyle  
Prevent kidney stones,  
obesity

Be vigilant:  
Prevent AKI

Protect your kidneys -  
Save your heart!

Protect your kidneys -  
control diabetes!

Diagnose and treat  
diabetes and  
hypertension early

Holistic integrated care

Kidneys & Women's Health

World Kidney Day

KIDNEY HEALTH FOR EVERYONE EVERYWHERE

STOP Acute Kidney Injury

Merin Joseph

Milind Shinde

Girish Bhatt

Tanmay chaturv...

Brijendra

Furkan Ahmad

Suryendru Kumar

arti sharma

sarika panpatil

Nikitha Rafeek

Kapil Rabha


Pooja Soni

Sourmya Narula


ANKITA

# Parent's Awareness Webinar: Parents Queries answered by Dr Girish

Recording











Pediatric Nephrology Unit  
Department of Pediatrics  
All India Institute of Medical Science, Bhopal.



World Kidney Day  
11 March 2021  
**LIVING WELL  
WITH  
KIDNEY DISEASE**

World Kidney Day is a joint initiative of ISN & IAPF-WKD  
© World Kidney Day 2004-2021

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>Milind Shinde    | <br>Girish Bhatt | <b>GARIMA</b>   |
| <b>Tanmay chaturv...</b>  | <b>Brijendra</b>  | <br>Furkan Ahmad |
| <br>Suryendru Kumar  | <br>arti sharma  | <b>sarika panpatil</b>  |
| <br>Merin Joseph     | <b>Nikitha Rafeek</b>   | <br>Kapil Rabha  |
| <br>Sourmya Narula | <b>ANKITA</b>   | <b>Sarang</b>   |

# Activities of Children with Kidney Disease: Slogans/Poster/Fancy dress



# Activities of Children with Kidney Disease: Slogans/Poster/Fancy dress



# AWARENESS CAMPAIGN IN OPD



# Parent information booklet and Press release

## स्वदेश

### बच्चों में बढ़ रहे गुर्दे संबंधी रोग रोकथाम के लिए एम्स में होगी वंशानुगत जांच

जेनेटिक टेस्टिंग के लिए देश भर के सैंपल आएंगे एम्स भोपाल, रखा जाएगा रिकॉर्ड

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

बिगड़ी जीवनशैली और अव्यवस्थित खानपान के कारण न केवल बड़े लोगों में बल्कि बच्चों में गुर्दे से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। पेशाब में जलन होना, पेशाब की धार विपरीत दिशा में जाना, पेशाब के साथ खून आना ये किडनी संबंधी बीमारियों के लक्षण होते हैं। बच्चों के माता-पिता को जागरूक रहकर तुरंत जांच व उपचार कराना चाहिए। ऐसा देखा जा रहा है कि वंशानुगत (जेनेटिक) किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके लिए एम्स भोपाल में जेनेटिक टेस्टिंग ट्यूब्यूलर डिजीज के लिए न केवल जांच व ट्रीटमेंट किया जाएगा बल्कि पूरे देश भर से जेनेटिक टेस्टिंग के लिए सैंपल यहां आएंगे और एम्स भोपाल में उनकी रजिस्ट्री तैयार की जाएगी।



### समय से बीमारी की पहचान जरूरी

एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रो. सरमन सिंह ने कहा कि समय से किडनी संबंधी बीमारी की पहचान जरूरी होती है। किडनी रोगों से ग्रसित 15 से 20 प्रतिशत बच्चों को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की इसमें अहम भूमिका है। बच्चों के उपचार करने वाले सभी सहयोगी विभागों ने बीते सालों में बेहतर काम किया है।

### इस साल की थीम: लिविंग वेल विद किडनी डिजीज

एम्स के पीडियाट्रिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. गिरीश भट्ट के अनुसार किडनी संबंधी रोगों की जागरूकता के लिए 2006 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल अलग-अलग थीम होती है। इस साल का विषय लिविंग वेल विद किडनी डिजीज यानि किडनी रोग के साथ अच्छे से जीना। इसके अंतर्गत किडनी संबंधी बीमारियां जल्द पकड़ने के लिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्रायोनोलॉजी में भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।

### मेगजीन यूनिवर्सिटी कनाडा के सहयोग से हो रहा इलाज

एम्स भोपाल के शिशु रोग विभाग की एचओडी डॉ. शिखा मलिक ने बताया कि मेगजीन यूनिवर्सिटी कनाडा के साथ एम्स ने अनुबंध किया है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में माहवार केस डिस्कस किया जाता है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रयासों की बढौलत हम सी लेवल से बी लेवल पर आ गए हैं। यहां रिसर्च, टीचिंग, पेशेंट केयर के रिकॉर्ड के आधार पर ये ग्रेड अपग्रेडेशन हुआ है।